

सुरक्षित लोग, सुरक्षित स्थान

अपने बच्चों की रक्षा करें

हमारे बच्चों की सुरक्षा व भलाई सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। माता-पिता व देखभाल कर्ता के रूप में सलाह व सुरक्षा देने के लिए हम अपने बच्चों के साथ हर समय नहीं हो सकते।

बच्चे जब कहीं बाहर जाते हैं तब उन्हें ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जब सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको ध्यान में रखते हुए, कुछ स्थितियों में बच्चों को सही प्रतिक्रिया करने के बारे में सलाह देने से मुसीबत व खतरे से बचने में उन्हें मदद मिलेगी।

यहाँ कुछ आसान सुझाव दिए जा रहे हैं जो आप अपने बच्चों को उस समय दे सकते हैं जब वे कहीं बाहर जाएँ।

चल कर घर आते समय अपने बच्चे की रक्षा करें

- स्कूल से घर आते समय **हमेशा** सुरक्षित स्थानों की पहचान करो।
- रुक कर किसी ऐसे व्यक्ति से बात **नहीं करें** जिसे तुम जानते नहीं हो। घर या जहाँ भी जाना हो सीधे जाओ।
- यदि तुम्हें डर लगे तो **हमेशा** सुरक्षित स्थान ढूँढो। इनमें स्कूल, दुकानें, चर्च या पुलिस/फ़ायरब्रिगेड/एम्बुलेंस स्टेशन शामिल हैं और उन्हें बताओ कि आपको डर लग रहा है।
- जिसे तुम जानते नहीं हो ऐसे व्यक्ति के साथ कार में **कभी भी नहीं** जाओ।

अपने बच्चे की सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा करें

- अकेले स्थानों में **कभी भी** यात्रा न करें। गाड़ी में ऐसे डब्बे देखें जिनमें बहुत लोग हों, गार्ड का डिब्बा (इसमें नीली लाइट लगी होती है) या बस के आगे के हिस्से में।
- यदि हो सके तो **हमेशा** मित्रों के साथ समूह में यात्रा करें।

अपने बच्चे की सार्वजनिक स्थानों में सुरक्षा करें

- अपने माता-पिता का संपर्क नम्बर **हमेशा** अपने पास रखें। (किसी कार्ड पर जो तुम्हारे किसी कपड़े पर टाँक दिया जाए, हाथ पर लिखा हो या तुम्हारे फ़ोन में हो)।
- अपने परिवार या मित्रों को यह बिना बताए कि तुम कहाँ जा रहे हो, कब लौटोगे व किसके साथ जा रहे हो, उन से दूर **कभी भी न** जाओ।
- झगड़ों या बहस, खराब या आक्रामक व्यवहार से **हमेशा** दूर रहो और अपने मित्रों को अपने साथ ले कर जाओ।
- **याद रखो** कि यदि कुछ होता है तो अपने माता-पिता, देखभाल कर्ता या टीचर को हमेशा बताएँ।

अपराध निवारण पर अधिक जानकारी के लिए हमारी
वेबसाइट पर देखें www.police.nsw.gov.au



Justice



आपातकालीन या जान-सेवा स्थितियों के लिए।



पैर- आपातकालीन स्थितियों के लिए।



अपराध संबंधी जानकारी देने के लिए। यह जानकारी बिना नाम बताए दी जा सकती है।